

From :

Mr./Mrs. _____

Designation : _____

To,
The Principal
(Drawing & Disbursement Officer)
IHMCT & A. N.
Porvorim - Goa

Sub : Application to issue Salary Certificate

I the undersigned wish to apply/stand as surety to Mr./Mrs. _____
_____ for availing loan from _____
(Name of the Bank), _____ (Place).

Kindly issue me a salary Certificate to produce the same to the above mentioned Bank.

I hereby authorize you to deduct from the salary/wages payable to me such amount as may be specified in the requisition towards the installment of loan, interest/penal interest thereon and to pay to the Bank the amount so deducted in satisfaction of the debt or other demand of the Bank against me.

I also hereby authorize the Institute to repay the full loan amount from the Gratuity Retirement or Voluntary Retirement Benefit or any other amount payable to me or to my legal heirs towards the recovery of the entire balance due by me to the bank in the event of my death, superannuation retirement, premature retirement, compulsory retirement etc. to the aforesaid Bank.

I hereby declare that the Institute shall not be held responsible whatsoever manner for the aforesaid recovery of the said loan and my family shall not have any objection for the same.

(Signature of the Applicant)

Name :

Designation :

Date :

यदि आवेदक कोई प्रतिपूरक भत्ता ले रहा हो तो उसे आदेश में भी सूचित कि जाना चाहिए कि छुट्टी की समाप्ति पर संस्थान का कर्मचारी उसी पद पर लौटने वाला है या समान भत्ते वाले किसी दुसरे पद पर ।

प्रेषक :

श्री/श्रीमती

पद

सेवा में

प्राचार्य

(ड्रॉइंग एवं संवितरण अधिकारी)

होप्रखाप्रोएपोविसं)

पर्वरी-गोवा

विषय : वेतन प्रमाणपत्र जारी करने का अभ्यावेदन/आवेदन

मैं अधोहस्ताक्षरी ----- (बैंक का नाम) ----- (स्थान) से ऋण उपलब्ध कराने हेतु

श्री/श्रीमती ----- को निश्चितता के रूप में आवेदन करने की इच्छा करता हूँ ।

कृपया मुझे उपर्युक्त बैंक को दिखाने के लिए वेतन प्रमाणपत्र जारी कर दे ।

मैं एतद् द्वारा आपको ऋण की किश्त, ब्याज। उसपर ब्याज दंड के लिए ऐसी राशि जो मांग में उल्लिखित की जाए को मुझे देय वेतन/मजदूरी से काटने के लिए प्राधिकृत करता हूँ और मेरे विरुद्ध बैंक को कोई मांग अथवा काटी गई राशि कर्ज के संबंध में बैंक में जमा करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ ।

मैं एतद् द्वारा संस्थान को पूरे ऋण की राशि उपदान सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ या मुझे देय कोई अन्य राशि या उपर्युक्त बैंक को मेरी मृत्यु, अधिवाधिता सेवानिवृत्ति, अपरिपक्व सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति आदि के समय मेरे द्वारा देय बैंक को पूरे बकाया की वसूली के लिए अपने वैधानिक उत्तराधिकारियों को देय राशि से बैंक को पुनर्भुगतान करने के लिए भी प्राधिकृत करता हूँ ।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त ऋण की वसूली के लिए किसी भी तरीके से संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा और इसके लिए मेरे परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम :

पद :

दिनांक :